



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260851
CG-DL-E-08022025-260851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 665]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

सं. 58/2024-25

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 87 के अंतर्गत आयात नीतिगत शर्त संख्या 1 (III) में संशोधन - के संबंध में।

का.आ. 669(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 87 के अंतर्गत नीतिगत शर्त संख्या 1 (III) को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है:—

मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
(III) 1 जनवरी, 1950 से पहले विनिर्मित कारें वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा आयात के लिए मुक्त हैं। इन कारों के लिए ऊपर दी गई नीतिगत शर्तें (I) और (II) लागू नहीं होंगी। तथापि, सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाली ऐसी कारें केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और नियम, 1989 के अधीन रहेंगी।	(III) यथा संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अध्याय III क के नियम 81 क के उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के तहत 'विंटेज मोटर वाहन' के रूप में वर्गीकृत कारें वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा आयात के लिए मुक्त हैं। इन वाहनों के लिए आईटीसी एचएस 2022 के अध्याय 87 की नीतिगत शर्त संख्या 1 (I) और 1 (II) लागू नहीं होंगी। तथापि, सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाली ऐसी कारें मोटर

	वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन रहेंगी। इसके अलावा, ऐसी आयातित कारें समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अध्याय III के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करेंगी।
--	--

अधिसूचना का प्रभाव: विंटेज मोटर वाहनों का वर्गीकरण यथा संशोधित केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के साथ अनुरूप करने हेतु संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-01/93/180/1483/एम-03/पीसी-2(क)/ई-1868]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2025

No. 58/2024-25

Subject: Amendment in Import Policy condition no. 1(III) under Chapter 87 of ITC (HS), 2022, Schedule –I (Import Policy). - reg.

S.O. 669(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby revises the Policy Condition no.1 (III) under Chapter 87 of the ITC (HS) 2022, Schedule-1 (import Policy) with immediate effect as under:-

Existing Policy condition	Revised Policy Condition
(III) Cars manufactured prior to 1st January, 1950 are free for import by Actual Users. Policy Condition (I) and (II) above shall not be applicable for these cars. However, such of the cars that would be plying on public roads will continue to be subject to Central Motor Vehicles Act, 1988 and Rules, 1989.	(III) Cars classified as 'Vintage motor vehicles' under Explanation to sub-rule (1) of rule 81A of Chapter IIIA of Central Motor Vehicles Rules, 1989 as amended, are free for Import by Actual Users. Policy Condition no. 1 (I) and 1 (II) of Chapter 87 of ITC HS 2022 shall not be applicable for these vehicles. However, such of the cars that would be plying on public roads will continue to be subject to Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under. Further, such imported cars shall comply with conditions laid down under Chapter IIIA of Central Motor Vehicles Rules, 1989 as amended from time to time.

Effect of the Notification: Classification of Vintage Motor Vehicles has been revised to align it with the Central Motor Vehicles Rules, 1989 as amended.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/1483/AM-03/PC-2(A)/E-1868]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade and Ex-officio Addl. Secy.